



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 1984/फाल्गुन 2, 1985  
No. 67] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 1984/P. FALGUNA 2, 1985

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1984

अधिसूचना

का. आ. 105(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3  
उपखण्ड (2) तारीख 17-1-1976, पृष्ठ 204 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि,  
न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 24  
तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29)  
की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब वक्फ अधिनियम,  
1964 का और संशोधन करने के लिए गिम्मलिखित नियम बनायी है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंजाब वक्फ नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पंजाब वक्फ नियम, 1964 के नियम 16 के उपनियम (14) में खण्ड (ख) के  
विद्यमान उपखण्ड (3) को उपनियम के खण्ड "(ड.)" के रूप में अधोराक्षित किया

जाएगा और इस प्रकार अक्षरकित खण्ड (ड.) को पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, या”

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और नाम से

[4(1)/84-वक्फ]

एस. पी. सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st February, 1984

### NOTIFICATION

S.O. 105(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. S.O. 247, dated the 30th December, 1975, published in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 17th January, 1976, at page 204, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Punjab Wakf Rules, 1964, namely :—

(1) These rules may be called the Punjab Wakf Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 16, of the Punjab Wakf Rules, 1964, in sub-rule (14), existing sub-clause (iii) of clause (b), shall be lettered as clause “(c)” of the sub rule, and before clause (c) as so lettered, the following shall be inserted, namely :—

“(iii) a Corporation established by or under a Central, Provincial or State Act or a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or”

By order and in the name of the  
President of India.

[4(1)/84-Wakf]

M. P. SINGH, Dy. Secy.